

2014
2015

प्रपत्र सं. 1 / FORM NO. 1

प्रथम नियुक्ति / 31 दिसम्बर 2015 को अचल सम्पत्ति का विवरण (जैसे-भूमि, घर, दुकान, अन्य भवन इत्यादि)
Statement of Immovable Property on first appointment / as on the 31st December 2015 (eg. Lands, House, Shops, Other Building, etc.)

सी.एस.आई.आर. कम्प्लेक्स
CSIR MADRAS COMPLEX
संयुक्त विभागीय कार्यालय
CO-OP SECRETARIAT
27 JAN 2016
थरमणी / Tharamani
चेन्नै / Chennai 600 113

संस्थान का नाम / Name of the Institute CSIR Madras Complex

अधिकारी का नाम (पूरा) / Name of the Officer (in full) T.V. RAJENDRAN

वर्तमान पद / Present Post held Hindi Officer

श.स.म.
क/281
5021
2011/11/14

वर्तमान वेतन / Present Pay PB-3 15600-39100
GP-5400

क्र. सं. / Sl. No.	सम्पत्तियों का विवरण / Description of Property	वास्तविक स्थान (जिला, संभाग, तालुक एवं गाँव का नाम जहाँ सम्पत्ति स्थित है और उसका विशिष्ट नम्बर भी इत्यादि) / Precise location (Name of District, Division, Taluk and Village in which the property is situated and also its distinctive number, etc.)	भूमि क्षेत्र (भूमि एवं भवन की स्थिति में) / Area of land (in case of land and buildings)	भूमि की प्रकृति (भूमि सम्पत्ति की स्थिति में) / Nature of land (in case of landed property)	अधिकार की सीमा / Extent of interest	अगर आपके नाम से नहीं है, तो किसके नाम है और उससे आपका क्या रिश्ता है। / If not in own name, state in whose name held and his/her relationship, if any to the Government servant
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Housing	AP- 697, 14-Block 15 th Main Road Anna Nagar west Chennai 600 060	920 sq.ft Land with 1355 sq.ft building thereon.	Residential Land Sold by the Tamil Nadu Housing Board	Full	In self and wife's name.

27/1/2016

अधिग्रहण की तारीख Date of acquisition	कैसे अधिग्रहण किया (क्रय, गिरवी, पट्टा, पैतृक, गिफ्ट और अन्य) और जिस व्यक्ति से अधिग्रहण किया उसका नाम और पता (सरकारी कर्मचारी से संबंधित व्यक्ति का कोई रिश्ता हो तो) (कृपया नीचे नोट 1 देखें) How acquired (whether by purchase, mortgage, lease, inheritance, gift or otherwise) and name with details of person / persons from whom acquired (address and connection of the Government servant, if any, with the person / persons concerned) (please see note 1 below)	सम्पत्ति की कीमत (नीचे नोट 2 देखें) Value of the Property (See Note 2 below)	निर्धारित प्राधिकारी की मंजूरी का विवरण, यदि कोई हो तो Particulars of sanction of prescribed authority, if any	सम्पत्ति से कुल वार्षिक आय Total Annual Income from the property	टिप्पणी Remarks
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
July 2002	Purchased from Mrs Radha Vasudalan	Purchased for Rs. 19.5 Lakhs (Present value about 2 Crores)	Intimated to office vide my letter dated 9.7.2002	Nil (self occupied)	

दिनांक / Date: _____

हस्ताक्षर / Signature _____

8/11/2016

नोट / Note 1 :- कॉलम 9 में प्रयुक्त "पट्टे" शब्द का उद्देश्य एक वर्ष के किराये को आरक्षित करते हुए अचल सम्पत्ति का पट्टा एक वर्ष या उससे अधिक होने से है। जहाँ, तथापि अचल सम्पत्ति का पट्टा किसी सरकारी कर्मचारी से प्राप्त हुआ है तो इस प्रकार का पट्टा, चाहे वह अल्पकालीन या दीर्घकालीन हो, समय-समय पर भुगतान की गई किराये की राशि पट्टे वाले कॉलम में दिखाया जाना चाहिए / For purpose of Column 9, the term "lease" would mean a lease of immovable property from year to year or for any term exceeding one year to reserving a yearly rent. Where, however, the lease of immovable property is obtained from a person having official dealings with the Government servant, such a lease should be show in this column irrespective of the term of the lease, whether it is short term or long term, and the periodically of the payment of rent.

नोट / Note 2 :- कॉलम 10 से दर्शाया जाना चाहिए / In column 10 should be shown :-

- (अ) जहाँ सम्पत्ति क्रय, गिरवी और पट्टे पर अधिग्रहण की गयी है उस अधिग्रहण के लिए भुगतान की गई प्रीमियम राशि;
(a) Where the property has been acquired by purchase, mortgage or lease, the price of premium paid for such acquisition;
- (आ) जहाँ सम्पत्ति पट्टे पर अधिग्रहण की गयी है, उससे प्राप्त कुल किराये की राशि; और
(b) Where it has been acquired by lease, the total annual rent thereof also; and
- (इ) जहाँ सम्पत्ति पैतृक, गिफ्ट और विनियम पर अधिग्रहण की गयी है, तो अधिगृहीत सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य।
(c) Where the acquisition is by inheritance, gift or exchange, the approximate value of the property so acquired.